



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 570) पटना, शुक्रवार, 15 जून 2018

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश
13 जून 2018

सं० अ०स०क०-01 (प्रोन्नति) अरा०-134/2017/656-34—बिहार सचिवालय लिपिकीय नियमावली, 2006, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3295 दिनांक 20.03.2017 के नियम-7 का उप नियम (5) एवं 16103 दिनांक 18.12.2017 के नियम (8) में निहित प्रावधानों के तहत जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में कार्यरत इन्टरमिडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण निम्नलिखित समूह 'घ' के कर्मियों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पे० बैण्ड वेतन 5200-20200 + ग्रेड पे० 1900 पुनरीक्षित वेतनमान 19900-63200 लेवल-2 एवं अन्य भत्ते के साथ सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम, वरीयता क्रमांक एवं कोटि	वर्तमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में पदस्थापन	गृह जिला	नव पदस्थापित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुचित कुमार सिंह, वरीयता क्रमांक-03 अनारक्षित (UR)	गया	गया	मधुबनी	एक ही कोटि के 02 (दो) निम्नवर्गीय लिपिक नियोजित रहने की स्थिति में 65 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके निम्नवर्गीय लिपिक की संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2.	सुश्री सीमा कुमारी, वरीयता क्रमांक-05 अनुसूचित जाति (SC)	समस्तीपुर	समस्तीपुर	शिवहर	
3.	श्री सुनील सिंह यादव, वरीयता क्रमांक-10 पिछड़ा वर्ग (BC)	नालन्दा	बक्सर	कैमूर	

क्र०	नाम, वरीयता क्रमांक एवं कोटि	वर्तमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में पदस्थापन	गृह जिला	नव पदस्थापित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
4.	श्री अनुराग कुमार सिंह, वरीयता क्रमांक-14 अनारक्षित (UR)	सुपौल	मधेपुरा	गया	
5.	श्री सुनील कुमार सिंह, वरीयता क्रमांक-15 अनारक्षित (UR)	पटना	बक्सर	किशनगंज	
6.	श्री संजय कुमार पाण्डेय, वरीयता क्रमांक-17 अनारक्षित (UR)	बांका	बक्सर	समस्तीपुर	
7.	श्री पवन पन्ना, वरीयता क्रमांक-18 अनुसूचित जनजाति (ST)	मधुबनी	लोहरदगा (झाराखण्ड)	औरंगाबाद	

2. संबंधित कार्यालय द्वारा प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों के अर्हता (इन्टरमिडिएट अथवा समकक्ष) संबंधी मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन करा लेने के पश्चात् नये वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा।

3. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि कोई भी गलत प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र जमा किया गया है, तो इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा। 15 दिनों के अन्दर नव प्रोन्नत पद पर योगदान नहीं करने वाले कर्मियों का प्रोन्नति रद्द समझी जायेगी।

5. यह सशर्त औपबधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं एतद् संबंधी किसी वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
मो० एस० आई० फैसल,
विशेष सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 570-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>